

बांग्लादेश का भौगोलिक विवरण (Geographical Account of Bangladesh)

बोलेंद्र कुमार अगम,
सहायक प्राध्यापक, भूगोल,
राजा सिंह महाविद्यालय, सिवान

गतांक से आगे

खनिज संसाधन

बांग्लादेश खनिज संसाधन के मामले में धनी देश नहीं है। यहां की भूगर्भिक संरचना में कोयला, प्राकृतिक गैस, चूनापत्थर तथा लोहा थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है।

- कोयला - फरीदपुर क्षेत्र में पाया जाता है जो कि घटिया किस्म का है
- प्राकृतिक गैस - सिलहट, तिपरा, रसीदपुर के गैस भंडारों से प्राप्त की जाती है
- खनिज तेल - सिलहट, चटगांव तथा तिपरा में पाया जाता है

चटगांव में प्रमुख तेल शोधन कारखाना स्थित है



उद्योग धंधे

बांग्लादेश कृषि प्रधान देश होने के कारण उद्योगों में बहुत अधिक विकास नहीं कर पाया है। फिर भी यहां के उद्योग अपने सफल प्रयासों द्वारा विकास की ओर अग्रसर हैं।

प्रमुख उद्योग: जूट उद्योग, सूतीवस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, उनी वस्त्र उद्योग, दियासलाई उद्योग

जूट उद्योग

बांग्लादेश जूट का प्रमुख उत्पादक है। यहां जूट के सामान बनाने के करीब 100 कारखाने हैं। जूट उद्योग की शुरुआत 1951 में हुई।

यहां के प्रमुख जूट उत्पादक केंद्र हैं: नारायणगंज, खुलना, दुरमा, चटगांव, ढाका, बलनपुर आदि।

सूतीवस्त्र उद्योग

बांग्लादेश में सूती वस्त्र उद्योग काफी उन्नत अवस्था में है। प्राचीन काल से ही ढाका का मलमल विश्व प्रसिद्ध रहा है। देश में सूतीवस्त्र उद्योग के करीब 100 मिल हैं। प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं: खुलना, नारायणगंज, कुशित्या, वज्रहाट, ढाका आदि।

चीनी उद्योग

बांग्लादेश में चीनी उद्योग लगातार विकास कर रहा है। यहां चीनी बनाने के 40 से अधिक कारखाने हैं। प्रमुख चीनी उत्पादक केंद्र हैं: रंगपुर, दीवानगंज, ठाकुरगंज आदि।

कागज उद्योग


बांग्लादेश में कागज उद्योग की शुरुआत 1951 में हुई जबकि कर्णफूली नदी के किनारे चंद्रधोना स्थान कर्णफूली पेपर मिल नाम से कारखाना स्थापित किया गया। फिलहाल बांग्लादेश में कागज बनाने के 10 से अधिक कारखाने हैं। यहां अखबारी कागज तथा आर्ट कागज बनता है।

प्रमुख केंद्र हैं: खुलना

सीमेंट उद्योग

बांग्लादेश में सीमेंट का एक पुराना कारखाना सिलहट में स्थित है। इसके अलावा देश में अन्य 5 कारखाने स्थित हैं।

लौह इस्पात उद्योग



चित्र स्रोत:

https://www.researchgate.net/figure/Industrial-Map-Showing-Major-Industries-Located-in-Bangladesh_fig1_323303412

बांग्लादेश में भारत सरकार की सहायता से लौह इस्पात उद्योग का विकास किया जा रहा है ।

अन्य उद्योग

बांग्लादेश में उपर्युक्त उद्योग धंधों के अलावे दियासलाई के 63, कांच के सामान के 51, खाद बनाने के 9 कारखाने स्थित है ।

परिवहन

बांग्लादेश में परिवहन के सभी प्रकार के साधन जैसे रेलमार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग तथा जलमार्ग इत्यादि विकसित है । रेल मार्ग की कुल लंबाई 2855 किलोमीटर थी हालांकि 1971 के युद्ध काल में पाकिस्तानी सेना द्वारा बहुत सारे रेलमार्ग और सड़क मार्ग को नष्ट कर दिया गया । देश में सड़कों की कुल लंबाई 21000 किलोमीटर है ।

यहां पर जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है । बांग्लादेश में कुल 700 नदियाँ हैं । ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में जल परिवहन अधिक होता है । चांदपुर से नारायणगंज तथा ढाका से बारिशाल होते हुए लोहा गंज तक प्रमुख जलमार्ग है । यहाँ जलमार्ग की कुल लम्बाई 24140 किमी है । देश में ढाका, चटगांव तथा सिलहट प्रमुख हवाई अड्डे हैं ।


2013 में, बांग्लादेश में लगभग 2,950 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन थी।

जनसंख्या

बांग्लादेश घनी आबादी वाला देश है । जनसंख्या की दृष्टि से यह एशिया का पांचवा और विश्व का आठवां सबसे बड़ा देश है । 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 14,97,72,364 थी जो 2020 में 164,488,562 हो गयी । जिसमें मुसलमान 88% शेष 12% में अनुसूचित जाति के लोग, ईसाई, बौद्ध तथा हिंदू थे । जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । बांग्लादेश में सबसे अधिक घनत्व पूर्वी भाग के ढाका जिले में स्थित है जहां 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व पाया जाता है । सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिलहट तथा मोहनगंज जिले के आसपास है जहां का जनसंख्या घनत्व 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है ।

चित्र और डाटा स्रोत:

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Bangladesh



धार्मिक समूह	जनसंख्या का भाग 2011
इस्लाम	90.39
हिन्दू	8.3%
बौद्ध	0.6%
ईसाई	0.4%
अन्य	0.1%

प्रमुख नगर

बांग्लादेश धीरे-धीरे विकास कर रहा है। यहां के प्रमुख नगर हैं: ढाका, चटगांव, नारायणगंज, खुलना, जैसोर आदि।

ढाका

ढाका बांग्लादेश की राजधानी के अतिरिक्त प्रमुख व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा राजनीतिक केंद्र है। यहां सूती वस्त्र उद्योग, मलमल तथा कांच बनाने के कारखाने स्थित हैं। यहां बांग्लादेश का प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इस नगर की जनसंख्या 60 लाख से अधिक है। ढाका की जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है।

चटगांव

चटगांव बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह भी व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा आयात-निर्यात का केंद्र है। यहाँ बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह है। यहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग भी स्थित हैं। चटगांव की जनसंख्या 25 लाख के करीब है।

चित्र स्रोत:

<https://www.mapsofworld.com/bangladesh/bangladesh-political-map.html>



- सन्दर्भ: एशिया का भूगोल-एस बी पी डी प्रकाशन(चतुर्भुज ममोरिया), इन्टरनेट, विकिपीडिया
